

भारत सरकार  
रक्षा मंत्रालय  
रक्षा उत्पादन विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1947  
07 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

**अवमानक सामग्री की आपूर्ति**

**1947. डॉ. उदित राज :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कथित तौर पर कुछ पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की मिलीभगत से कुछ दलालों द्वारा महाराष्ट्र में चांदा आयुध निर्माणी को करोड़ों रुपयों की बड़ी हुई लागत पर अवमानक सामग्री की आपूर्ति की सूचना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
- (ग) क्या आयुध निर्माणी मुख्यालय कोलकाता के उच्च प्राधिकारियों को की गई शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और
- (ड.) भारत में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 की रिपोर्ट संख्या 15 पर इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क): जी, नहीं ।

(ख): प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ): सीवीसी के दिनांक 22.01.2015 के आदेश और सीवीओ के दिनांक 17.02.2015 के पत्र के आधार पर निदेशक / सतर्कता (डब्ल्यू/सी), आयुध निर्माणी, अम्बाजहरी, नागपुर द्वारा दिनांक 19.12.2011 के आपूर्ति आर्डर के संबंध में गोलाबारूद कन्टेनर 39ए/एल और स्वीकृति में अनियमितता की एक शिकायत की जांच की गई थी । की गई जांच से गुणवत्ता प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किए जाने का पता चला है परन्तु आयुध निर्माणी चांदा द्वारा घटिया सामग्री की प्राप्ति नहीं हुई है । इस मामले में सीवीसी की सलाह प्राप्त हो गई है । दिनांक 19.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सीवीसी ने 22 अधिकारियों से परामर्श करने की सलाह दी । सीवीसी ने सेवानिवृत्त हो रहे 5 कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने

की भी सलाह दी। सतर्कता विभाग, आयुध निर्माणी बोर्ड ने अपने दिनांक 15.11.2017 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया कि सीवीसी की सलाह के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों को 'काउन्सेलिंग ज्ञापन' और 'चेतावनी ज्ञापन' दे दिए गए हैं।

(ड.) 2010-11 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सं. 15 पर की गई कार्रवाई टिप्पणी की विवीक्षा लेखा परीक्षा के द्वारा की गई और आयुध निर्माणी बोर्ड की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार जारी आवश्यक निदेशों के बाद व्यय विभाग, अनुवीक्षा प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय को दिनांक 02.08.2017 को भेजा गया।

\*\*\*\*\*